FINANCIAL EXPRESS

e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting in the meeting.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990.

It is further notified that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, made thereunder, the Register of Members and Share Transfer Register of the Company shall remain closed from 19th September, 2018 to 29th September, 2018 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting for the year ended 31st March, 2018.

By order of the Board For : ARCEE INDUSTRIES LIMITED

Place: Hisar Dated: 06.09.2018

Ramesh Chander Gupta Director, DIN- 00284823

PACIFIC INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: Survey No. 13, N.H.48, Kempalinganahalli Village, Nelamangala Taluk, Bangalore-Karnataka 562123 Tel No. +91-8027723004; Fax: +91-8027723005 Corporate Office: Village Bedla, P.O. Box 119, Udaipur-313001

Tel No. +91-294-2440196, 2440388; Fax: +91-294-2440780

Email: pacificinvestor@rediffmail.com; Website: www.pacificindustries/kd.com CIN: L14101KA1989PLC062041

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 29th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Saturday, 29th September, 2018 at 10.00a.m. at the Registered Office of the Company at Survey No. 13, N.H.48, Kempalinganhalli, Nelamangala Taluk, Bangalore 562123(Karnataka) to transact the business as set out in the notice. The Company has been dispatch the notice of its 29th Annual General Meeting ("AGM Notice") along with the Annual report for the year 2017-18. The aforesaid documents are also available on Company's website www.pacificindustriesltd.com.

The Company is pleased to offer e-voting facility to the members to cast their votes electronically on all resolution set forth in the notice convening the 29th Annual General Meeting. The company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide e-voting facility. In this regard, Shareholder's Demat Account/Folio Number have been enrolled by the company for the participation in e-voting on resolution placed by the e-voting system. The e-voting facility is available at the link https://www.evotingindia.com, during the following period:

Commencement of e-voting End of e-voting

25th September, 2018 at 09.00 AM 28th September, 2018 at 05.00 PM

NOTICE IS ALSO HEREBY given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, that the Register of Members and register of Share Transfer books of the Company shall be closed fromSunday, 23 September, 2018 to Saturday, 29th September, 2018 (both days inclusive). For the purpose of Annual General Meeting.

By order of the board of Director

Place: Udaipur Date: 06th September 2018

Sd/-(J. P. AGARWAL) Chairman & Managing Director

UJALA COMMERCIALS LIMITED

CIN: L51909DL1985PLC021397

Regd. Office: A-6/343B, 1st Floor, Janta Flats, Paschim Vihar, New Delhi-110063 E-mail: csujala.commercial@gmail.com; Website: www.ujalacom.in Phone: 011-49879687

NOTICE OF 32nd ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 32rd Annual General Meeting (AGM) of the members of Ujala Commercials Limited ("the Company") is schedule to be held on Friday, September 28, 2018 at 01:30 P.M. at Apsara Grand Banquets, A-1/20B, Paschim Vihar, Rohtak Road, New Delhi-110063, to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM.

The Members who are holding shares in dematerialized form and the other members wh have registered their E-mail id with the Company for receiving communications in electronic mode, have been sent the aforesaid documents through an e-mail on Saturday, September 01, 2018.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing electronic voting (Remote e-voting) facility to the members to enable them to cast their votes electronically. Accordingly, the items of business given in the Notice of the AGM may be transacted through electronic voting facilities provided by

Central Depository Services (India) Limited (CDSL). Members are informed that the Company has completed the dispatch of the Notices of member is already registered with CDSL for remote e-voting, ne can use his existing User Id and password for casting vote through remote e-voting.

A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at AGM. In case of voting by both the modes, vote casted through remote e-voting will be considered final.

6. The members are informed that (a) The remote e-voting shall commence on September 26, 2018 at 9:00 a.m. and end on September 28, 2018 at 5:00 p.m. (b) Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 pm on September 28, 2018. (c) In case of any queries relating to voting by electronic means, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQ") and e-voting manual available at download section of www.evotingindia.com or contact at toll free No. 1800-200-5533 or contact Mr. Wenceslaus Furtado, Deputy Manager, CDSL at Email: wenceslausf@cdslindia.com, Tel: 022-22723333/8588.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable rules thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books for of the Company will remain closed from September 22, 2018 to September 29, 2018 (Both days

inclusive), for the purpose of Annual General Meeting (AGM)

PLACE: CHANDIGARH DATED: 05:09.2018

For Steel Strips Limited Sanjay Garg Executive Director (DIN-00030956)

PG ELECTROPLAST LIMITED

CIN: L32109DL2003PLC119416

Regd. Office: DTJ209, 2™ Floor, DLF Tower-B, Jasola, New Delhi-110025

Corporate Office: P-4/2 to 4/6, Site-B, UPSIDC Indl. Area, Surajpur,

Greater Noida, U.P.- 201306

Tel No: +91-120-2569323 Fax No: +91-120-2569131

Email: investors@pgel.in Website: www.pgel.in

NOTICE OF THE 16TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING & BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 16TH ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") of the shareholders of PG ELECTROPLAST LIMITED (the "Company") will be held on Saturday, 29TH day of September, 2018 at 10:30 A.M. at Auditorium, Asia Pacific Institute of Management, No. 3 & 4 Institutional Area, Jasola, Opp. Sarita Vihar, New Delhi - 110025 to transact business as set out in Notice, Electronic copy of the Notice and Annual Report 2017-18 has been sent through E-mail to the members to their e-mail id registered with their depository participant/Company. Physical copies of the same have been dispatched to those members who have not registered that he e-mail id or opted for physical copy.

NOTICE is further given that the Register of Members and Share Transfer Books shall remain closed from 24.09.2018 to 29.09.2018 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

NOTICE is further given that

the Company is providing e-voting facility to enable Shareholders to cast their vote electronically through website https://evoting.karvy.com, from a place other than place of the meeting, for all businesses mentioned in the Notice of this AGM.

The remote e-voting shall start on 26.09.2018 at 10:00 AM & close on 28.09.2018 at 5:00 PM. Remote E-voting shall not be allowed beyond the said time & date:

During this period, the member of the Company, holding shares either in physical form or dematerialized form, as on 24.09.2018 may cast their vote by electronics means. Once the vote on a resolution is cast, subsequent change of the same is not allowed.

Any person who has acquired shares and become member after the dispatch of the Any person who has acquired shares and pecome member after the dispatch of the notice of the AGM may obtain Login ID & password by sending request at E-mail ID evoting@karvy.com with a copy to investors@ogel.in. (Folio number or DP ID and Client ID should be mentioned in such mail). However, if a member is already registered with Karvy for E-voting, he can use existing user id/password for casting vote.

Members may contact to Mr. Sanchay Dubey, Company Secretary through Email investors@pgel.in or at Phone no 94-120-2569323 in relation to any grievances related to voting facilities

The facility for voting through polling paper shall also be made available at the vehue of AGM to those members attending the meeting in person or by proxy/Authorised representative, who have not casted their vote by remote e-voting. Those members, who have casted their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but they shall not be entitled to cast their vote again.

A person whose name is recorded in the register of members or in register of beneficial owners maintained by the depository as on 24.09.2018 only, shall be entitled to vote at remote E-voting as well as in Annual General Meeting.

Notice convening this AGM is available on Company's website www.pgel.in under the category Investors Relation & on website www.evoting.karvy.com. The Annual Report is also available on website of the Company www.pgel.in.

For PG Electroplast Limited

Place: Greater Noida Dated: 05.09.2018

Sanchay Dubey Company Secretary

Ansal Properties & Infrastructure Limited
Regd. Office: -115, Ansal Bhawan,
16, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001
Tel; 91-11-66302268-69-70 Fax: 91-11-66302871 Website: www.ansalapi.com Emails shareholderservice@ansalapi.com CIN No.: L45101DL1967PLC004759

NOTICE OF THE 51st ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

a. 51st Annual General Meeting (AGM)

Notice is hereby given that the 51st Annual General Meeting of the Members of Ansal Properties & Infrastructure Ltd. will be held on Saturday, the 29th September, 2018 at 11.00 A.M. at Sri Sathya Sai International Centre, Pragati Vihar, Bhism Pitamah Marg (Near ICICI Bank) Lodhi Road, New Delhi - 110003. The Notice setting out the business to be transacted at the AGM together with the Deini - 110003. The Notice Security of the business store that a statements (Standalone and Annual Report containing inter-alia, audited Financial Statements (Standalone and Consolidated), for the Financial Year ended on the 31st March, 2018, in terms of Section 101 and

Notice (9.00 e-voti The C mean who a cut-off passy info@ with N can be in the mainta entitle the ge

made in the but sh For de refer

regard (FAQs undex toll fre

New [05.09.

> 1. Th€ hel 4:0

the 2. Cor the in 1 reg

> wet 3. Mei cut and

соп

Cer 4. Any mee follo If th

exis 5. Am rem

both 6. The Sep Vot

Sep mer ava 180 Ema

Pur Will inch

PLACE

DATED

Ap

क्रेंकलिन लीजिंग एंड फाइने CIN: U74899DL1992PLO

पंजीकृत कार्यालय : यूनिट/ शॉप नं0 205, दूसरा रोड नं0 44, पीतमपुरा, दिल्ली-दूरभाष : 011 4235 148

वेबसाइट : www.franklinleasing.in; ई-मेल : franklin 26वीं वार्षिक आमसभा, रिमोट ई-वोटिंग संसूचव

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि

कंपनी की 26वीं वार्षिक आमसभा ('एजीएम') यूनिट रि सिटी, माल रोड नं0 44, पीतमपुरा, दिल्ली- 110034 में एक 4.30 बजे आयोजित है, जिसमें वार्षिक आमसभा की सुट्वीं विषयों पर चर्चा की जाएगी;

वार्षिक आमसभा की सूचना की इलेक्ट्रानिक प्रतियां तथा सभी सदस्यों को प्रेषित कर दी गई है जिनका ई-मेल पंजीकृत है। यह कंपनी की वेबसाइट- www.frankli वार्षिक आमसभा की सूचना प्रेषण का कार्य 05 सितंबर, 21

कट-ऑफ तिथि 21 सितंबर, 2018 को फिजिकल फार्म धारण करने वाले सदस्यगण वार्षिक आमसभा हेतु निर्दिष्ट स्थम डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएस) के इलेक्ट्र वोटिंग'') के माध्यम से वार्षिक आमसभा की सूचना में ड संदर्भ में इलेक्ट्रानिक तौर पर मतदान कर सकते हैं। सभी स 26वीं वार्षिक आमसभा की सूचना में उल्लिखित सामान्य व के जरिए मतदान द्वारा चर्चा हो सकती है :

रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, 26 सितंबर, 2018 को दिन के 09 पूरा रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 28 सितंबर, 2018 को अप. 5.00

वार्षिक आमसभा में अथवा इलेक्ट्रानिक माध्यम के जरिए ऑफ तिथि शुक्रवार, 21 सितंबर, 2018 है।

कोई भी व्यक्ति, जो वार्षिक आमसभा की सूचना के प्रेषण के लिये कंपनी का शेयर अधिग्रहण किया है तथा कट-ऑफ तिथि उ शेयर धारण किया है, वह evoting@cdsl.co.in पर पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि व्यक्ति ई-वोटिंग्पेल पंजीकृत है, तो मतदान हेतु वर्तमान यूजर आईडी तथा पासद सदस्यगण को ध्यान रहे कि : अ) मतदान हेतु निर्दिष्ट गाभ सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग माड्यूल को निष्क्रिय कर्मभा

बार प्रस्ताव पर मतदान कर देने पर, बाद में सदस्यों को उसे मतपत्र के जरिए मतदान की सुविधा वार्षिक आमसभा में उप जरिए मतदान हेतु अपने अधिकार का प्रयोग करने के उपर सकते हैं परंतु उन्हें सभा में फिर से मतदान करने की अनुमति जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरी द्वारा चैक में कट-ऑफ तिथि को दर्ज है, सिर्फ उनको वार्षिक आमसच्^{तिर} रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा मुहैया कराई जाएगी;

vii. 26वीं वार्षिक आमसभा की सूचना कंपनी की वेबसाइट-सीडीएसएल की वेबसाइट- https://www.evoting.cd की viii. सदस्यगण पूछताछ के लिए सदस्यों के लिए संदर्भित फ्रीक्वेंटल

https://www.evoting.cdsl.com के डाउनलोड से रूप यूजर मैनुअल की सहायता ले सकते हैं अथवा टोल फ्री ने0 11 वे अथवा नामित ई-मेल आईडी : helpdesk.evoting@ इलेक्ट्रानिक वोटिंग से संबंधित शिकायतों का जिक्र कर सकत ई-मेल आईडी पर अथवा पंजीकृत कार्यालय के पते पर कं बही बंद

कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तिका शनिवार, व सितंबर, 2018 (दोनों दिन समाहित) तक बंद रहेँगे। वास्ते फ्रॅंकिन ली

स्थान : दिल्ली दिनांक : 05 सितंबर, 2018

Orașil अोरासिल स्मिथ्स इंडिया लिमिटेड

CIN: L74899DL1994PLC059341 पंजी. कार्यालयः फ्लैट न0. 620, हेमकुंट चेम्बर्स 89, नेहरू प्लेड नई दिल्ली-110019

कॉर्पोरेट कार्यालयः ए-89, सेक्टर-2, नोएडा-201301 (यू.पी) ईमेलः info@orosil.com, वेबसाइटः www.orosil.com

24वीं वार्षिक आम बैठक, बुक बंदी एवं रिमोट ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की चौबीसवीं (24वीं) वार्वि बैठक शनिवार, 29 सितम्बर, 2018 को प्रातः 11 बजे वाईडब्ल्यूसीए रोड, नई दिल्ली-110001 में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की में निर्धारित व्यवसाय का निष्पादन किया जाएगा।

सूचना और वित्त वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉ उन सभी सदस्यों को मेज दी हैं जिनके ई-मेल आईडी शेयर ट्रांसकर डिसॉजिटरी प्रतिमागी के साथ फंजीकृत हैं। यह कंपनी वेबसाइट www.oos पर भी उपजन्ध हैं। एजीएमुं की सूचना और वित्त वर्ष 2817—18 के किए रिपोर्ट अन्य सदस्यों को स्वीकार्य पद्धति में उनके पंजीकृत पते पर मेज हैं। एजीएम की सूचना मेजे जाने का कार्य 5 सितम्बर, 2018 को पूरा क गया है।

एतद्द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनीज़ अधिनियम, 2013 व 91 और सूचीकरण विनियम के विनियम 42 के अनुसरण में कंपनी के सदक रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक रविवार, 23 सितम्बर, 2018 से शनिव सितम्बर, 2018 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।

कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सेबी (एलओडीआर) वि 2015 के विनियम 44 के संदर्भ में, कंपनी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉकि (एनएसडीएल) के माध्यम से सूचना में शामिल व्यवसाय के लेनदेन के ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। ई-वोटिंग अवधि बुधवार, 26 सि 2018 (प्रातः 9.00 बजे) प्रारंभ होगी और शुक्रवार, 28 सितम्बर, 2018 (स

पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड

CIN: L32109DL2003PLC119416 पंजी. कार्यालयः डीटीजे209, 2 प्लोर, डीएलएफ टॉवर-बी, जसोला, नई दिल्ली-110025 काथालथः डाटाजा209, 2 पलार, डाएलएफ टावर—बा, जसाला, नह ादल्ला—110025 कार्पोरेट कार्यालय, पी-4/2 से 4/6, साइट बी, यूपीएसआइंडीसी इंडरिट्रयल एरिया, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, यूपी-201306 फोन: +91-120-2569323 फैक्स: +91-120-2569131 इंमेल: investors@ppel.in

16वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड ("कंपनी") के शेयरघारकों की 16वीं वार्षिक आम बैठक शनिवार, 29 सितंबर, 2018 को प्रातः 10:30 बजे ऑडिटोरियम, एशिया पेसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैंट, नं0. 3 व 4 इंस्टीट्यूशनल एरिया, जसोला, सरिता विहार के सामने, नई दिल्ली—110025 में सूचना नगणनंदः, १७. ३ व म स्टाउपूरानार प्रस्ता, असावा, आसावान्य स्टाउप्तान की इलेक्ट्रॉनिक प्रति और वार्षिक रिपोर्ट में यथा-निधारित कार्यों को संपन्न करने के लिए आयोजित होगी। सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति और वार्षिक रिपोर्ट 2017—18 सदस्यों को उनके डिपॉजिटरी/ कंपनी से पंजीकृत उनके ई-मेल आईडी पर ई-मेल के माध्यम से 2017 - 10 सबस्या का जान किनाजिया जन सबस्यों को प्रेषित की गई है जिन्होंने अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराए हैं या भौतिक प्रति का विकल्प चुना है।

पुनः सूचना दी जाती है कि वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन से सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां <u>24.09.2018</u> से 29.09.2018 तक (दोनों दिनों सहित) बंद रहेंगे।

पुनः सूचना दी जाती है कि

कंपनीं इस एजीएम की सूचना में उल्लेख किए गए संभी कार्यों के लिए, शेयरबारकों को बैठक के स्थान के अलावा अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए वेबसाइट https://evoting.karvy.com के माध्यम से ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है।

रिमोट ई-वोटिंग 26.09.2018 को प्रातः 90:00 बजे आरंग होंगी और 28.09.2018 को सायं 5:00 बजे ारगाट २-पाएरा २००७,२०१० पर आराः १००० वर्ग जारग रहागा जार २००७,२०१० पर स बंद होगी । जन्त समय और तिथि के बाद रिमोट ई-वेटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

इस अवधि के दौरान, 24.09.2018 की तिथि को भौतिक या डिमैटीरियलाज्ड रूप में, शयर रखने वाले कंपनी के सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने वोट डाल सकते हैं। किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डालने पर, बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है।

कोई व्यक्ति जिसने एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद शेयर प्राप्त किए हैं और सदस्य बना है वह investors@pgel.in को एक प्रति के साथ ई - मेल आईडी: evoling@karvy.com पर अनुरोध भेजकर लॅगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। (ऐसी मेल में फोलियों नेबर या डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी का उल्लेख किया जाना चाहिए)। तथापि, यदि कोई ब्यक्ति ई-वोटिंम के लिए कार्वी से पहले से पंजीकृत है, तो वह वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी / पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।

ई-वोटिंग सुविधाओं से संबंधित किसी शिकायत के संबंध में सदस्य श्री संचय दुबे, कंपनी सचिव से ईमेल investors@pgel.in या फोन नंबर 91-120-2569323 पर संपर्क कर सकते हैं।

बैठक में ख्वयं या प्रॉक्सी / अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित उन सदस्यों को मतपत्र के माध्यम से वोटिंग अपरान राज्य था आपराप जावकृत आसानाव क माव्यन स प्रभारथत छन सदस्या का मतपत्र क माव्यन स वाहरा की सुविचा एजीएम के स्थान पर भी प्रदान की जाएगी, जिन्होंने रिमोट ई-बोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है। जिन सदस्यों ने बैठक से पूर्व रिमोट ई-बोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया है वे भी बैठक में उपस्थित हो

सकते हैं, किंतु वे दुबारा अपना वोट डालने के लिए पात्र नहीं होंगे। कोई व्यक्ति जिसका नाम 24.09.2018 की तिथि को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई—वोटिंग के साथ ही वार्षिक आम बैठक में वोट डालने का

इस एजीएम के आयोजन की सूचना कंपनी की वेबसाइट <u>www.pgel.in</u> में निवेशक संबंध श्रेणी के अंतर्गत और वेबसाइट <u>www.evoling.karvy.com</u> पर उपलब्ध है। वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट <u>www.pgel.in</u> पर भी उपलब्ध है।

कृते पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड हस्ता/ संचय दुबे कंपनी सचिव

स्थानः ग्रेटर नोएडा तिथाः 05.09:2018

रूद्रोभिषेक इन्टरप्राईजेज लिमिटेड CIN: 074899DL1992PLC050142 विद्युकृत कार्यालयः 820, अंतरिक्ष, भवन, भार्ग, नई दिल्ली -110001

कु० बार्ज भाग, नह (वरला - 11000) सूचना सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी की छबीसवीं वार्षिक साधारण बैठक गुक्रवार, सितन्बर 28, 2018 को दोपहर 3 बजे वाईडब्ल्सीए बिल्डिंग, कोन्सतानतिया हाल, 1 अशोका रोड, नई दिल्ली-110001 में आयेजित की जायेगी।

कासतानातथा हाल, न अशाका शे इ, नई । दल्ली110001 में आयेजित की जायेगी।
कथ्मनीज अधिनियम, 2013 की घारा 91 साथ में
पठित कम्पमीज (प्रबच्धन एवं प्रशासन) नियमन, 2014
के नियम 12 एवं सेवी '(लिस्टिंग दायित्वां ये क्
प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी के सदस्यों की
पांजका एवं शेयर हस्तांतरण क्रिताबं 22 सितम्बर,
2018 से 28 सितम्बर, 2018 (दोनों दिवस शामिल
कर) एजीएम के उदेश्य हेतु बंद रहेंगी।
कम्पनीज अधिनियम, 2013 की घारा 102 के
अनुसरण में छबीसवीं एजीएम की सूबना के साथ
कथन एवं 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष की वार्षिक
रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को जिनके डाक पते/
ई-मेल पते कम्पनी के डियाजटरीज मानीवार
(डीपीएस)/पंजीयक एण्ड शेयर हस्तांतरण एउट (आर
एण्ड टी) के पांसा पंजीकृत को भेज दी गई हैं।
सूनना पूर्व कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की
वेबसाइट www.repl.global से डाउनलोंड की जा वेबसाइट www.repl.global से डाउनलॉड की जा सकती है।

सकती है।

कट-आफ तिथि i.e. 21 सितन्बर, 2018 को एक
व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों की पंजिका/लाभदाई
स्वामी की पंजिका में अंकित होगा केवल वही लागांष
एवं बैठक में वोट देने का अधिकारी होगा। कियनों में वोट देने का अधिकारी होगा।
कम्पनी ने वोटिंग प्रक्रिया को एजीएम में निष्पक्ष एवं
पारदर्शी तरीके से जींच के लिए श्री प्रदीप देबनाथ,
मैसस्र प्रदीप देबनाथ एण्ड क०, कम्पनी सचिव को
जाँचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।
एजीएम स्थल पर वोटिंग प्रक्रिया भौतिक मत प्रपत्र
द्वारा संचालित की जायेगी। एक सदस्य एजीएम में
रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट देने के बाद भी एजीएम
में भाग ले सकता है लेकिन फिर से वोट देने की
अनुमति नहीं होगी। न नाग ल संपता है लोकन किर से बाद देन के अनुमति नहीं होगी। एक सदस्य आवश्यकता पड़ने पर कम्पनी से वार्षिक

प्रपंत्र सं. आईएनसी-26 किम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केन्द्र सरकार, (क्षेत्रीय निदेशक, नई दिल्ली) उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप–नियम(5) के क्लॉज (क) के विषय में

प्योर मीडिया इमेजिनेशन प्राइवेट लिमिटेड प्यार माडिया इमाजनरान प्राइयेट वितरिक (सीआईएन : U74900DL2016PTC290282) जिसका पंजीकृत कार्यालय 220, द्वितीय तल, डीएलएफ गैलेरिया मॉल, मयूर विहार फेज-1, नई दिल्ली-110092 में स्थित है, केयाचिकादाता

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा इसका पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के संबंध में 19 मार्च, 2018 को आयोजित इसकी असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की याचना हेतु कम्पनी अधिनियम्, 2013 की धारा 13 के अधीन एक आवेदन केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रमावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां निवेशक शिकायत प्रपत्रभरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर सुपुर्द कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण